

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
मुजफ्फरपुर पश्चिम

पत्रांक :- 2164 (130) ज०,

दिनांक :- 11/12/2024

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
मुजफ्फरपुर पश्चिम।

सेवा में,  
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
—सह—सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु आवंटन की मांग।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार रु० 46,85,428.00 (छियालीस लाख पच्चासी हजार चार सौ अठाईस) रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, ताकि किये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनुलग्नक- 1. विहित प्रपत्र में अधियाचना।

विश्वरामभाजन  
11/12/24

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
मुजफ्फरपुर पश्चिम

cha  
11/12/24

**Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)**

Name of Works Division :- Muzaffarpur West

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance Maint. (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/MU/MUZ/19/0006	Hirapur - Pichpura-Path	NEA220002610	06.07.2019	4.300	252.700	123.50530	33.48668	249MBD/2020-21	27.12.2020	Work Complete	2159.000	25mm	5.00	68.86171	68.86171	46.85428	MB Copy Attached
															68.86171	68.86171	46.85428	

*9/11/2020*

*6/11/2024*  
 Executive Engineer  
 RWD Works Division  
 Muzaffarpur West



Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/W:- Const. of Road & CD work at Hirapur to Pitchpura path					
Agency:- Singh Construction Pvt Ltd.					
Agg NO:- 249 MBD/2020-21					
Supp. Agg. No:-					
Date of w/o:-					
Date of compn:-					
Actual Date of comp:-					
Date of Entry:- As below					
Measurement					
① Earthwork in excavation for excavation for structure as per drawing -- do -- tech. spec.					
Main cell	1	14.0	7.50	0.80	84.00 M <sup>3</sup>
R/W:-	4	4.50	3.427	1.80	111.03 M <sup>3</sup>
					= 195.03 M <sup>3</sup>
② Providing concrete for plain RCC M15 grade in open fdh complete -- do -- tech. spec.					
	1	14.00	7.50	0.150	15.75 M <sup>3</sup>

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<del>42</del> 53 P/L Gaudin affords for bed material - do - for sub- Olyvide TMB PNo. 22 144 M <sup>3</sup> @ Rs 3226.55/m <sup>3</sup> Rs = 464823.20					
<del>43</del> 54 Conf. of embankment with material obtain - do - for sub- Olyvide TMB PNo. 25 340.86 M <sup>3</sup> @ Rs 175.11/m <sup>3</sup> Rs = 59688.20					
<del>44</del> 55 Conf. of embankment with material - do - Olyvide TMB PNo. 25 227.24 M <sup>3</sup> @ Rs 138.00/m <sup>3</sup> Rs = 31359.20 Rs = 1,13,78,170.00 Add GST 12% Rs = 1,36,53,802.00 Add C 1% Rs = 11,37,82.00 Rs = 1,28,57,332.00 Less 10% below Rs = 1,28,57,33.00 Rs = 1,15,71,599.00 Less prev. Pw. Rs = 68,86,171.00 Rs = 46,85,428.00					
<del>45</del> 56					

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
मुजफ्फरपुर पश्चिम

पत्रांक :- 512/2021/मुज0.

दिनांक :- 25/3/2022

प्रेषक:- कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
मुजफ्फरपुर पश्चिम।

सेवा में,  
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
—सह—सचिव,  
ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना।

विषय:- शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु आवंटन की मांग।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष नई अनुरक्षण नीति-2018 (MR) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार रु0 77.42503 (सतहत्तर लाख बयालीस हजार पाँच सौ तीन) रुपये मात्र का आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाये, ताकि किये गये कार्य का भुगतान किया जा सके।

अनुलग्नक- 1. विहित प्रपत्र में अधियाचना।

विश्वासभाजन

Kishu  
25/3/22

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,  
मुजफ्फरपुर पश्चिम




OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

RWD WORKS DIVISION

MUZAFFARPUR WEST

Name of Scheme:- Hirapur - Pichpura-Path, Package No. - RM/MU/MUZ/19/0006

Project ID - NEA220002610

Certified that all item wise 100% measurement has been taken by me	Certified that all item wise 50% measurement has been Cheked by me	Certified that all item wise 10% measurement has been Cheked by me
 21/03/22 Junior Engineer RWD Work Section Motipur Works Division Muzaffarpur West	 21/03/2022 Assistant Engineer RWD Work Sub Division Motipur Works Division Muzaffarpur West	 21/03/22 Executive Engineer RWD Works Division Muzaffarpur West

# Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division :- Muzaffarpur West

S.N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)			Agreement Amount (in Lakh)			Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
1	2	3	4	5	Length (in Km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5Year Routine Maintenance Maint. (in Lakh)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	RMUM/MUZ/19/0006	Hirapur - Pichpura-Path	NEA220002610	06.07.2019	4.300	252.700	79.15100	33.48668	249NIBD/2020-21	27.12.2020	On-going	2159.000	25mm	5.00	0.000000	0.000000	77.42503	MB Copy Attached		
															0.000000	0.000000	77.42503			

*Kishor*  
Executive Engineer  
RWD Works Division  
Muzaffarpur West

Name of Road - Hirapur to Pitchpura

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI, CATEGORY ROAD	Latitude	ongitude	Event
23/3/22	11:5:0	11	0.1	370	0	3700	3645 G	4.79	26.25731	85.15151 Normal
23/3/22	11:5:15	11	0.1	370	10.1	3700	3645 G	4.79	26.25669	85.15111 Normal
23/3/22	11:5:50	11	0.1	290	10.1	2900	2854 G	3.85	26.25631	85.1505 Normal
23/3/22	11:6:0	11	0.1	280	20.2	2800	2755 G	3.73	26.25572	85.15002 Normal
23/3/22	11:6:24	11	0.1	130	20.2	1300	1272 G	1.87	26.25498	85.1497 Normal
23/3/22	11:6:24	11	0.1	100	20.2	1000	975 G	1.48	26.25448	85.14942 Normal
23/3/22	11:6:24	11	0.1	140	20.2	1400	1371 G	2	26.2538	85.14874 Normal
23/3/22	11:7:0	11	0.1	120	20.2	1200	1173 G	1.74	26.25359	85.14824 Normal
23/3/22	11:7:0	11	0.1	210	20.2	2100	2063 G	2.88	26.25337	85.14775 Normal
23/3/22	11:7:35	11	0.1	140	20.2	1400	1371 G	2	26.25302	85.14705 Normal
23/3/22	11:7:35	11	0.1	160	20.2	1600	1568 G	2.26	26.25259	85.14657 Normal
23/3/22	11:8:0	11	0.1	160	20.2	1600	1568 G	2.26	26.25227	85.14604 Normal
23/3/22	11:8:10	11	0.1	110	20.2	1100	1074 G	1.61	26.25185	85.14562 Normal
23/3/22	11:8:10	11	0.1	160	20.2	1600	1568 G	2.26	26.25148	85.14529 Normal
23/3/22	11:8:10	11	0.1	100	30.3	1000	975 G	1.48	26.24888	85.14496 Normal
23/3/22	11:8:46	11	0.1	270	20.2	2700	2656 G	3.61	26.24824	85.14465 Normal
23/3/22	11:9:0	11	0.1	250	20.2	2500	2458 G	3.37	26.24761	85.14439 Normal
23/3/22	11:9:21	11	0.1	240	20.2	2400	2360 G	3.25	26.24713	85.14406 Normal
23/3/22	11:9:21	11	0.1	280	20.2	2800	2755 G	3.73	26.24293	85.14377 Normal
23/3/22	11:9:21	11	0.1	250	20.2	2500	2458 G	3.37	26.24241	85.14333 Normal
23/3/22	11:10:0	11	0.1	200	20.2	2000	1964 G	2.76	26.24171	85.14284 Normal
23/3/22	11:10:0	11	0.1	220	20.2	2200	2162 G	3	26.24124	85.14232 Normal
23/3/22	11:10:31	11	0.1	300	10.1	3000	2953 G	3.97	26.24076	85.14201 Normal
23/3/22	11:11:0	11	0.1	230	20.2	2300	2261 G	3.13	26.24023	85.14164 Normal
23/3/22	11:11:7	11	0.1	250	20.2	2500	2458 G	3.37	26.23989	85.14134 Normal
23/3/22	11:11:42	11	0.1	200	10.1	2000	1964 G	2.76	26.23959	85.141 Normal
23/3/22	11:12:0	11	0.1	260	10.1	2600	2557 G	3.49	26.23922	85.14047 Normal
23/3/22	11:12:17	11	0.1	280	10.1	2800	2755 G	3.73	26.23891	85.13999 Normal
23/3/22	11:12:17	11	0.1	260	20.2	2600	2557 G	3.49	26.23839	85.13952 Normal
23/3/22	11:12:52	11	0.1	260	20.2	2600	2557 G	3.49	26.23793	85.13882 Normal
23/3/22	11:13:0	11	0.1	200	20.2	2000	1964 G	2.76	26.23746	85.1383 Normal
23/3/22	11:13:0	11	0.1	240	20.2	2400	2360 G	3.25	26.23717	85.1341 Normal
23/3/22	11:13:28	11	0.1	220	20.2	2200	2162 G	3	26.23684	85.13362 Normal
23/3/22	11:13:28	11	0.1	140	30.3	1400	1371 G	2	26.23658	85.13299 Normal
23/3/22	11:14:0	11	0.1	150	30.3	1500	1469 G	2.13	26.23627	85.13235 Normal
23/3/22	11:14:3	11	0.1	270	30.3	2700	2656 G	3.61	26.23594	85.12975 Normal
23/3/22	11:14:3	11	0.1	210	30.3	2100	2063 G	2.88	26.23561	85.12938 Normal
23/3/22	11:14:3	11	0.1	170	20.2	1700	1667 G	2.38	26.23519	85.12896 Normal
23/3/22	11:15:0	11	0.1	230	10.1	2300	2261 G	3.13	26.23466	85.12864 Normal

Y = 0 \* X ^ 2 + 0.989 \* X - 13.58  
X = 2800  
Y = 2755

(R) RURAL ROAD  
Good Average Poor  
<4000 4001-5000 >5001



Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
23/3/22	11:20:0	11	0.1	260	10.1	2600	2557 G	3.49	26.23418	85.12821 Normal
23/3/22	11:20:3	11	0.1	250	20.2	2500	2458 G	3.37	26.23348	85.12786 Normal
23/3/22	11:20:52	11	0.1	240	20.2	2400	2360 G	3.25	26.23299	85.12764 Normal
23/3/22	11:21:34	11	0.1	280	20.2	2800	2755 G	3.73	26.23249	85.12743 Normal
							AVG:-			
							2159			

✓

File : C:\Users\BRDDA42\Desktop\Bump Report\Singh Constucion\56122320.XIs, Section No.:11, Eqn :  $Y = 0 * X ^$

Name of Customer : MS Singh Construcion, Name of Work/ Road : Hirapur to Pitchpura, Lab Job number :

